



श्री जिनायनमः  
श्री सोमप्रज्ञाचार्य विरचित  
श्री सिंदूर प्रकर.

आ ग्रथ

मूल, टीका, जापा, बालावबोध अने  
कथाउ सहित ठे  
तेने

यथामति ससोधन करावीने,  
श्रावक, श्रीमसिंह माणके

श्री मोहमयी पत्तन मध्ये

निर्णयमागर छापसानामा छपावी प्रसिद्ध कर्यो छे

सवत् १९५८ सने १९०२

धंशाख शुदि त्रयोदशि

## प्रस्तावना. .

— ३ —

“सिंदूर प्रकर” आ अपूर्व ग्रथमां तेना कर्ता श्री शोमप्रज्ञाचार्य महाराजे नीति आदि विषयोनु यथातथ्य एवु तो निरूपण करेलुं ठे के, ते वांचव वर्गनाहृदयमां वांचवानी साथेंज निति विगेरेनी स जाड ठाप वेसाडी दे ठे. आ अलौकीक ग्रथ प्रथम श्रेष्ठ नीमसी जाइए “जैनकथा रत्नकोष ना” प्रथम जागमां ठपावेल हतो ते ग्रंथनी तमाम प्रतो थइरही ठे तेज आ ग्रंथनी महत्त्वत्ता दर्शावी आपे ठे. तेमज तेनी मांगणी घणे स्यलेथी थाय ठे तेथी अमोए आ “सिंदूर प्रकर” ग्रंथ मूल, टीका, जापा वालाववो थ अने तमाम कथाउ सहित जूदो ठपाव्यो ठे

आ ग्रथ वांच्या पठी ते फरी फरी वांचवा मन थाय ठे मतलबक तेमां समावेल विषय धर्मोपयोगी होवानी साथे संसार व्यवहारीपयोगी पण होवार्थी ए ग्रथ कठोत्रे अतां अलज्य लाज आपवा परिपूर्ण समर्थ ठे. वांचनार साहेबोने तेमां निरूपण करेली बावटावेहव तंवाज स्वरुपे परिणम्या रहे नही एवी

— ३ —

हृदयमां प्रवेश श्रवणी साथे तेवी रीतनी प्रवृत्ति श्र-  
 अस्य नि.संदेह थइ शके एम कही शकाय तेम ठे.  
 जेणी वीतराग परमात्मानी जक्तिमां लीन थइ आ  
 असार संसारसमुद्र तरी पार पडवाने समर्थ थवाय  
 ठे अने तेथी आ ग्रंथ एक नौका समान ठे.

आ ग्रथनो जेम जेम विशेष जैन जाइउं लाजले  
 वी मारी जीझासा होवार्थी फक्त आ एकलोज ग्र-  
 जूदो प्रसिद्ध कर्यो ठे आ ग्रंथ ठपाववामां दृष्टी  
 पथी अगर मतिमंदताने लीधे कांइपण न्यूनाधिक  
 चन सिद्धांत विरुद्ध लखायुं होय ते मीथ्या दुष्कृत  
 अने तेवी कोइ झूल होय तो ते वांचनार श्रीसं-  
 सुधारी वांचवा कृपा करवी. ठपाया पठी अमारा  
 वामां जे कोइ झूलो आवी ते संबंधी शुद्धिपत्र आ  
 ने ठेडे दाखल कर्युं ठे ते मुजब प्रथम सुधारी लइ  
 वा प्रयत्न करशो एवी आशा ठे.

ता १० मी मे.

शने १९०२

डां श्रावक,  
 जीमसिंह माणिकना  
 कार्य प्रवर्तको

# अस्य पुस्तकस्यानुक्रमणिका.

सिद्धूरप्रकराख्यग्रथनी अनुक्रमणिका

त्माक

त्रिपय

८०१

- १ मगलाचरण तथा साज्जनाराने आशीरवाद
- २ वीजा काव्यमा सज्जनपुरुषोप्रत्ये ग्रथकर्त्तानी त्रिज्ञप्ति
- ३ त्रीजा काव्यमा आगमानुसारं जव्यजनने हितोपदेश
- ४ धर्मने विषे प्रमाद न करवा आश्रयी ललिताग कुमरनीकथा
- ५ चोथा काव्यमा मनुष्यजन्तु दुर्लजपणु वखाण्यु ठे
- ६ मनुष्यजवना दुर्लजपणाविषे दश दृष्टातनी दश कथा
- ७ पाचमा काव्यमा मनुष्यजवनो मर्वोत्कृष्ट जय कह्यो ठे
- ८ ठठा काव्यमा समारना विषयमाठे धर्मनो त्याग करनारमू
- ९ मूढ अमूढ उपर शशी अने सूर वे जाडुर्जनी कथा
- १० सातमा काव्यमा मनुष्यजन्मनु तथा धर्मसामग्रीनु दुर्ल
- ११ आठमा काव्यमा ए ग्रथमा कहेला उपदेशना वारो कह्याटे
- १२ नवमाथी वारमा श्लोकमा श्रीतीर्थकरनी जक्तिनु वर्णन ठे
- १३ तेरमाथी शौलमा श्लोकोमा गुरनी जक्तिनु वर्णन ठे
- १४ कुबोधना त्रिदलन करनार श्रीगुर ठे ते उपर सूर्याजदेवनी
- १५ गुरुसेवा करनार उपर श्रीगौतमस्वामीनी कथा
- १६ सत्तरमाथी वीशमा श्लोकोमा जिनमत तथा सिद्धातमा
- १७ सिद्धातश्रवण उपर रोहिणीया चोरनी कथा
- १८ एकत्रीशथी चोवीशमा काव्य पर्यंतसघनो महिमा कह्यो
- १९ श्रीसघमहिमा उपर जरतचक्रकर्त्तानी कथा
- २० पच्चीशथी अचत्रीशमा श्लोकमा हिसानो निषेध कट्यो

१७१— २—	( अपत्यय के० )	( अप्रत्यय के० )
१७१—१२—	आसत्य	असत्य
१७३— ९—	पुरपने	पुरुपने
१७५— ७—	शुक्तिमनी	शुक्तिमती
१७५—२०—	जूदा	जूदा
१९४— ३—	गुनवनका	गुनवनकों
२०६— ६—	वनवा	वनना
२०८— ३—	विश्रामञ्चु ,	विश्रामञ्चु ,
२०९—१९—	क्रीडागृह मित्यर्थ	क्रीडागृहमित्यर्थ
२२१—१९—	( धम के० )	( धर्म के० )
२२९—१५—	तेना	तेनो
२२९ १८—	गणोतो	गण तो
२३३—१२—	करत्ति	करतूति
२३८— ४—	दूरतोमुज	दूरतोमुंच
२६०—१४—	यशश्चयादि	यशश्चयादि
३०२—१६—	( वीम्लगाड्य के० )	( नीम्लगाड्य के० )
३०३— ८—	धूमस म्हनी	धूम समूह नी
३१२—११—	शुजाशुजकर्मज	शुजाशुजकर्मजे
३२०— १—	हेतका	हेतकों
३६१—१५—	वेराग्य	वेराग्य

११ जीवदयानी उपर दामनकनी कथा कही ठे	१७७
१२ उंगणत्रीशथी वत्रीशमा श्लोकोमा साचुवोलवानो प्रजाव	१६४
१३ सत्यवचन उपर वसुराजानी कथा कही ठे	१७५
१४ तेत्रीशथी वत्रीशमा श्लोकोमा अदत्तादानव्रत स्वरूप ठे	१८०
१५ अदत्तव्रत उपर नागदत्तनी कथा	१८७
१६ साडत्रीशथी चालीशमा श्लोकोमा ब्रह्मचर्यनुं स्वरूप	१९१
१७ एकतालीशथी चुम्मालीशमा श्लोकपर्यंत परिग्रहना दोष	२०१
१८ परिग्रह त्रिपे मम्मणशेठनी कथा	२१७
१९ पीस्तालीशथी उंगणपच्चाशमा काव्यमा क्रोधनो जय ठे	२१५
२० क्रोध त्यागनी उपर गजसुकुमारनी कथा	२२४
२१ उंगणपच्चासथी त्रेपनमा काव्योमा मानना दोष कथा	२२६
२२ मानना त्याग उपर नदीपेणनी कथा	२३५
२३ त्रेपनथी उपन्नमा काव्योमा मायानो त्याग कथो ठे	२३६
२४ सत्तावन्नथी शाठमा काव्यसुधी लोचनो त्याग कथो	२४३
२५ लोचनी उपर सागरशेठनी कथा कही ठे	२५३
२६ एकशठथी चोशठमा काव्योमा सौजन्यता राखजानो उप	२५८
२७ सौजन्य उपर त्रिकुमराजानी कथा कही ठे	२६६
२८ पासठथी अडशठमा काव्योमा गुणीजनना सगनु वर्णन	२७५
२९ सारा नरसानी सगत उपर वे पोपटनी कथा	२८७
३० उंगणोतेरथी वहोतेरमा काव्यसुधी उच्चियजयनो उपदेश	२८७
३१ उच्चियदमन उपर सात्यकीनी कथा	२९६
३२ ब्रहोतेरथी वहोतेरमा काव्यसुधी खडमीनो स्वप्ताव क	३०२
३३ खडमीनी चचलता त्रिपे सुदरराजानी कथा	३१२

सेवन करवां, ते सेवनार सुजनने जे पुण्य उत्पन्न थाय  
वे, ते पुण्यना प्रसादे करीने उत्तरोत्तर मांगलिक्य-  
माला विस्तार पामो ॥ १ ॥

॥ टीका ॥ श्रीमत्पार्श्वजिनं नत्वा, स्तोतृणां सुखका  
रकम् ॥ सद्य संस्मृतिमात्रेण, प्रत्यूहव्यूहवारकम्  
॥ १ ॥ श्रीचन्द्रकीर्तिसूरीणां, सद्गुरुणां प्रसादतः ॥  
सिंदूरप्रकरव्याख्या, क्रियते हर्षकीर्तिना ॥ २ ॥ युग्मं ॥  
ग्रंथकर्ता आदौ इष्टदेवताचरणस्मरणरूपं मंगलाचरण  
पूर्वकं श्रोतृन् प्रति आशीर्वादवृत्तमाह ॥ व्याख्या ॥  
पार्श्वप्रज्ञोः श्रीपार्श्वनाथस्य क्रमयोश्चरणयोर्नखद्युति-  
जर. नखकांतिसमूहोवो युष्मान् पातु श्ववतु रक्षतु ॥  
कथञ्चूतो नखद्युतिजर. तपःकरीशिरःक्रोडे सिंदूर-  
प्रकरः तपएव करी हस्ती तस्य शिरःक्रोके मस्तकम-  
ध्यजाग कुजस्थलं तत्र सिंदूरप्रकर सिंदूरपुजसदृश.  
नखद्युतिजरस्य रक्तत्वात् सिंदूरप्रकरोपमा, पुन कथ-  
ञ्चूत नखद्युतिजर. कपायाटवीदावार्धिर्निचय कपा-  
या. क्रोध, मान, मायालोजास्तएव श्वटवी शरण्य वनं  
तस्या दावार्धिर्निचय. दावाग्निज्वालासमूहतुल्य ।  
पुन कथञ्चूतो नखद्युतिजर प्रबोधदिवसप्रारंभसू-  
र्योदय. प्रबोधज्ञानं सएव दिवसो दिनं तस्य प्रारं-



जे उदये सूर्योदयसमान । पुन कथञ्चूतो नखद्यु-  
 तिजर. मुक्तिस्त्रीकुचकुञ्जकुंकुमरस. मुक्तिरेव स्त्रीत-  
 स्या कुचावेव कुञ्जौ तत्र कुंकुमरस काष्मीररजोद्भ-  
 वक्षेपतुल्य मुक्तिस्त्रीवदनेककुंकुमरसइति वा पाठ ।  
 पुन कथञ्चूत नखद्युतिजर श्रेयस्तरो पल्लवप्रोद्धा-  
 स. श्रेय कल्याणमेव तरुवृक्षस्तस्य पल्लवानां नूतन-  
 पत्राणां प्रोद्धास उद्गम । ईदृश पार्श्वप्रज्ञो क्रमयो-  
 श्ररणयोर्नखद्युतिजरोवो युष्मान् पातु रक्ततु नखद्यु-  
 तिजरस्य रक्तवर्णत्वात् रक्ता एवोपमा । ज्ञो चव्य-  
 प्राणिन् । एवं ज्ञात्वा मनसि विवेकमानीय श्रीपा-  
 र्श्वनाथस्य चरणकमलौ एव सेव्यौ सेव्यमानानां  
 यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यप्रसादात् उत्तरोत्तर मागलि  
 क्यमाला विस्तरंतु ॥ १ ॥

जायाकाव्य - शोचिता तप गजराज, सीस सि-  
 द्दूरपूर ठवि ॥ बोधदिवस आरंभ, करन कारन उ-  
 द्योत रवि ॥ मंगल तरु पल्लव, कपाय कतार हुता-  
 शन ॥ बहु गुनरतन निधान, मुक्ति कमला कमला  
 सन ॥ इहविध अनेक उपमा सहित, अरुन वरन  
 सताप हर ॥ जिनराय पाय नख ज्योति वर, नमत  
 वनारसि जोरि कर ॥ १ ॥

हवे कवि सज्जन पुरुष प्रत्ये पोतानी  
विज्ञप्ति करे ठे

संतः संतु मम प्रसन्नमनसो वाचां विचारो  
द्यताः, सूतेऽञ्जः कमलानि तत्परिमलं वाता  
वितन्वंति यत् ॥ किंवाच्यर्थनयानया यदि  
गुणो स्त्यासां ततस्ते स्वयं, कर्तारः प्रथ-  
नं नचेदथ यशः प्रत्यर्थिना तेन किम् ॥९॥

अर्थ.- ( संतः के० ) सज्जनो, ( मम के० ) मने,  
( प्रसन्नमनसो के० ) प्रसन्न ठे मन जेनु एवा ( संतु  
के० ) हो अर्थात् मारी उपर, प्रसन्न चित्तवाला  
थाउं. ए सज्जनो केहवा ठे ? तोके ( वाचां के० )  
वाणीजना ( विचारोद्यता. के० ) सदसद्भिचारने  
विषे सावधान एवा अर्थात् आ वाणी सारी, आ  
वाणी नहिं सारी ए प्रकारना विचारने जाणनारा  
ठे. कवि कहे ठे ते घटे ठे ( यत् के० ) जे कार-  
णमाटे ( अञ्ज. के० ) जल जे ठे, ते ( कमलानि  
के० ) कमलाने ( सूते के० ) उत्पन्न करे ठे, परंतु  
( तत्परिमलं के० ) ते कमलानो आभोद जे ठे  
तेने तो ( वाता के० ) वायुज ( वितन्वंति के० ) वि-

स्तारे ठे, तेम हुं पण आ ग्रंथने रचीश, परंतु ग्रं-  
थनो विस्तार तो सज्जन पुरुषोज करशे. कोड ठे-  
काणे कहेलु ठे के ॥ श्लोक ॥ पद्मानि बोधयत्यर्क;  
काव्यानि कुरुते कवि ॥ तत्सौरजं नजस्वतः, संत-  
स्तन्वंति तद्गुणान् ॥ अर्थ.-कमलने सूर्य विकसित  
करे ठे, तेम काव्योने कवि करे ठे, अने ते कमलो-  
ना सुगंधने वायु प्रसार करे ठे, तेम ए कविना गु-  
णोने सत पुरुषो विस्तारे ठे, माटे सज्जननुं एवु  
लक्षणज होय ठे ( वा के० ) अथवा जो ते स-  
ज्जनोनी अर्च्यर्थना हुं करु तो पण ते ( अर्च्य  
के० ) आ मारी कवितानी प्रशसा करो एवी ( अ-  
र्च्यर्थनया के० ) याच्चाये करीने ( कि के० ) शुं  
कांहीज नहि श कारण माटे के ( यदि के० )  
जो ( आसां के० ) आ मारी वाणीउं मध्ये ( गु-  
णोस्ति के० ) गुण ठे ( तत के० ) तो ( ते के० )  
ते सज्जनो, ( ख्य के० ) पोतानी मेलेंज ( प्रथनं  
के० ) विस्तारनें ( कर्त्तार के० ) करनारा थाशे  
अर्थात् आ अथमा कांहीं गुण हशे तो सज्जनो ठे,  
ते मारी प्रार्थना कस्या विनाज विस्तार करशे,  
( अथन चेत् के० ) वली जो आ मारी वाणीउंमां

गुण नहिं होय तो ( यशःप्रत्यर्थिना के० ) यशना  
 शत्रुभूत अर्थात् अपयशने करनारा एवा ( तेन  
 के० ) ते विस्तारे करिने ( किं के० ) शु ? कांही-  
 ज नहि. एटवे निर्गुणनो विस्तार करवाथी अपय-  
 शज थाय ठे ॥ २ ॥

॥ टीका ॥ अथ कवि. सज्जनपुरुषान्प्रति स्ववि-  
 ह्वसिमाह ॥ संतइति ॥ सज्जना मम प्रसन्नमनसः  
 संतु ममोपरि प्रसन्नचित्ता जवंतु । किविशिष्टाः  
 संतः । वाचां कविवाणीनां विचारे सदसद्विचारे उ-  
 च्यता सावधानाः समीचीनासमीचीनविचारज्ञाः  
 यत् यस्मात् कारणात् अञ्ज. पानीय कमलानि सूते  
 तेषां कमलानां परिमलमामोदं वायवो वितन्वंति  
 विस्तारयन्ति तद्वदेनं यथमहं रचयिष्यामि पर वि-  
 स्तारं सज्जना करिष्यन्ति ॥ यत्. ॥ पद्मानि बोध-  
 यत्यर्कं काव्यानि कुरुते कविः ॥ तत्सौरभ नञ-  
 स्वत, संत स्तन्वंतु तद्गुणान् ॥ अथवा अनया म-  
 माच्यर्थनया सतामग्रे प्रार्थनया कि अपितु न कि-  
 मपि । कुत. । यद्यासां ममवाणीना मध्ये गुणोऽस्ति  
 तदा ते सतः स्वयमेव प्रथमं विस्तार कर्तार ज-  
 विष्यति ॥ यद्यस्मिन् शास्त्रे कश्चिद्गुणो जविष्यति

तदा संत. स्वयमेव अच्यर्थनां विनैव विस्तारं करि-  
ष्यति ॥ अथचेद्यदि आसां ममवाणीनां मध्ये गुणो  
नास्ति तदा तेन प्रथनेन विस्तरेण किं न किमपि ॥  
कथञ्चूतेन तेन प्रथनेन यशः प्रत्यर्थिना यशःप्रत्य-  
र्थिशत्रुचूतं यत्तत् यशःप्रत्यर्थि तेन यशः प्रत्यर्थिना  
यशसोविनाशकेन निर्गुणस्य विस्तारणेन अयशो  
भवतीत्यर्थः ॥ १ ॥

जापाकाव्यः—जैसे कमल सरोवर वासें, परिमल  
तासु पौन परगासै ॥ त्यों कवि जाषहि अक्षर जोरः  
सत सुजस प्रगटहिं चिहू उर ॥ जो गुणवंत रसा-  
लकवि, तौ जगमहिमा होइ ॥ जो कवि अक्षरगुन  
रहित, तौ आदरे न कोइ ॥ १ ॥

हृवे करी ठे सकल सुरासुरे सेवा जेमनी एवा जे  
श्रीवीनराग तेमना आगमना अनुसारे जव्य  
जनना हितने माटे धर्मोपदेश कहे ठे

॥ उपजातिवृत्तम् ॥ त्रिवर्गसंसाधनमंतरेण,  
पशोरिवायुर्विफलं नरस्य ॥ तत्रापि धर्मं प्रव-  
रं वदन्ति, न तं विना यद्भवतोर्थकामौ ॥ ३ ॥

अर्थ - हे जव्यजनो ! ( त्रिवर्गसंसाधनं के० )

धर्म, अर्थ अने काम, तेना साधननी ( अंतरेण के० ) विना ( नरस्य के० ) मनुष्यनुं ( आयुः के० ) आयुष्य ( पशोरिव के० ) ढागादिकनी पठें ( विफलं के० ) निःफल जाणवुं अर्थात् धर्म, अर्थ, काम अने मोक्ष ए चार जे पुरुषार्थ ठे तेमां हाल जरतखंरुमां मोक्ष तो साधवाने शक्य नथी, ए कारण माटे शेष धर्म, अर्थ अने काम, ए त्रणना उपार्जन विना नर जे मनुष्य तेनु जीवितव्य पशुनी पठे विफल जाणवु हवे त्यां आशका करे ठे के ते धर्म अर्थ अने काम, ए त्रणे समान ठे के कांश् ते लमां अंतर ठे ? तो त्यां कहे ठे, के ( तत्रापि के० ) ते त्रण वर्गमां पण ( धर्म के० ) धर्मने ( प्रवरं के० ) श्रेष्ठ, ( वदंति के० ) कहे ठे ( यत् के० ) जे कारण माटे ( तं के० ) ते धर्म ( विना के० ) विना ( अर्थकामौ के० ) अर्थ अने काम ( न के० ) नहिं ( जवत्. के० ) होय ठे. कारण के जेणे पूर्वजन्मे धर्म कख्यो ठे तेनेज अर्थ, काम, आ जन्ममां प्राप्त थाय ठे तेमाटें त्रणवर्गमां जे धर्म ठे, तेज श्रेष्ठ ठे. तेथी हे जव्यप्राणीयो ! मनने विषे विवेक लावीने श्रीसर्वज्ञप्रणीत धर्मज आचरण करवो धर्माचरण,

करनारा सज्जनोने जे पुण्य उत्पन्न थाय ठे, ते पु-  
ण्यना प्रसादे करीने उत्तरोत्तर मांगक्षिप्र्य माला  
विस्तार पामे ठे ॥ ३ ॥

टीका-अथ विहितसकलसुरामुरसेव्यस्य देवा  
धिदेवस्य श्रीवीतरागस्यागमानुसारेण ज्ञव्यानां हि-  
तहेतवे धर्मोपदेशमाह ॥ त्रिवर्गं इति ॥ जो ज्ञव्या-  
त्रिवर्गसंसाधनं अतरेण नरस्य आयुः पशोरिव वि-  
फल ज्ञेय । धर्मार्थकाममोक्षाश्चत्वारः पुरुषार्थाश्चतु-  
र्वर्गस्तेषां मध्ये सांप्रतं अस्मिन् जरतक्षेत्रे मोक्ष-  
साधयितु न शक्यः ॥ अतः कारणात् शेषत्रिवर्ग-  
धर्मोर्थकामरूपः । तस्य त्रिवर्गस्य ससाधन उपा-  
र्जनं अतरेण विना नरस्य मनुष्यस्य आयुर्जीवितं  
पशोरिव विफल निःफल वृथेत्यर्थ ॥ येन नरेण ॥  
धर्मार्थकामानां ससाधनं उपार्जनं न क्रियते  
तस्य जीवितं पशोरिव ठागादेरिव वृथा निःफलं  
॥ यत ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां, यस्यैकोपि न वि-  
द्यते ॥ अजागल स्तनस्यैव नीफल तस्य जीवि-  
तम् ॥ १ ॥ इति ॥ ते त्रयोपि किं सदृशा वा किं-  
चिदंतरं इत्याह ॥ तत्रापि त्रिवर्गे धर्मं प्रवरं वदन्ति  
प्रेष्ठ कथयति कुतः यत् यस्मात् कारणात् धर्मं विना

अर्थकामौ न जवत । येन पूर्वजन्मनि धर्मः कृ-  
तो जवति तस्यैवात्रार्थकामौ जवत. नान्यस्य ॥ य-  
दुक्तं किं जंपिण्ण बहुणा, जं जं दीसई समञ्जि-  
यलोए ॥ इदीयमणाजिरामं, तं तं धम्मं फलं सवं  
॥ २ ॥ अतः कारणात् त्रिवर्गे धर्म एव श्रेष्ठ ॥ जो  
जव्यप्राणिञ्जेवं ज्ञात्वा मनसि विवेकमानीय श्रीस-  
र्वज्ञप्रणीतो धर्म एवाचरणीयः धर्माचरतां सतां य-  
त्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यप्रसादात् उत्तरोत्तरमांगलिक्य-  
माला विस्तरंतु ॥ ३ ॥

जापाकाव्य - पुरुष तीन पदारथ साधहिं, धर-  
म विशेष जानि आराधहिं ॥ धरम प्रधान कहै सब  
कोइ, अरथ काम धरमहीत होइ ॥ धरम करत  
संसार सुख, धरम करत निरवान ॥ धरमपंथ सा-  
धन विना, नर तिरियंच समान ॥ ३ ॥

माटे धर्मने विपे प्रमाद न करवो, धर्मोद्यम क-  
रवाने प्रसादे ललितांग कुमर सुख पाम्यो, अने  
धर्म नहीं करवाथी सज्जननामा सेवक दु ख पाम्यो  
ते वेहुनी कथा कहे ठे.

कथा - एहज चरतक्षेत्रने विपे श्रीवाल नामे न-  
गर ठे. तिहां नरवाहन नामे राजा राज्य करे ठे,



तेने रूप यौवननिधान सर्वगुणें करी प्रधान, अमृतसमान जेनी वाणी ठे एवी कमलानामे स्त्री ठे तेनी कूखें जेम ठीपने विपे मुक्ताफल उपजे, तेवा रूपे करी अमर समान ललितागनामा कुंश्चर जन्म्यो, ते अनुक्रमें सर्व कलामा प्रवीण थयो. साक्षात् कदर्पावतार जेवो अने विनय विवेक विचार चातुर्यादि गुणे संपन्न थयो, तेने खालता पालतां ते यौवनावस्थाने पाम्यो, तेवारें अनेक प्रकारनां सांसारिक सुख जोगवतो दिवस व्यतिक्रमवा लाग्यो कोश्क अवसरें ते कुमरने कोश् सज्जन एवे नामे मित्र आवी मद्यो, यद्यपि तेनु नाम तो सज्जन ठे परंतु परिणामे करी ते अतिदुर्जन ठे. हवे तेनी उपर कुमर अत्यंत प्रीती राखे ठे, पण ते पोतानु दुर्जनपणु वधारतो जाय ठे ॥ यत. ॥ शशीनि खलु कदक, कटक पद्म नाळे, जलधिजलम पेय, पक्रिते निर्धनत्वं ॥ दयितजनवियोगं, दुर्नगत्वं स्वरूपे, धनपतिकृपणत्वं, रत्नदोषी कृतांतः ॥ १ ॥ जाड्यंधीमति गण्यते व्रतरुचो दत्तः शुचौ कैतवं ॥ इति काव्यं ॥ शशी दिवसधूसरो गलितयौ वना का मिनि, सरोविगतवारिजं मुखमनक्षर स्वाकृते ॥

प्रभुर्धनपरायणः सतत दुर्गतिः सज्जनो, नृपांगणगतः खलोन्नवंति सप्त शब्दानि मे ॥ २ ॥ इति ॥ जेम नागरवेदिमां नि.फलतानुं कलंक, चंदनमां कदुतानुं कलंक, लक्ष्मीमां चपलतानुं कलंक, सुवर्णने वीपे निर्गंधतानुं कलंक ठे. तेम ललितांग कुमरने विपे वार्ताविशेष जे कांश् कार्य प्रमुख करवां तथा गुणज्ञाता, पटुता प्रमुख जे करवां, ते सर्वमां सज्जननो मेलाप राखवो, ते कलंकरूप ठे.

अन्यदा ललितांग कुमर राजाने नमस्कार करवा भाटे गयो, विनयवंत गुणवंत कुमरने देखी राजा संतुष्ट थइने एक बहुमूख्यनो अपूर्व हार राजाये कुमरने दीधो कुमर राजाने नमस्कार करी पाठो बलतां ते कुमरनी मार्गमां याचकजनोये जयजयारव करी प्रार्थना कीधी तेथी कुमरे तरत ते हार याचकोने आपी दीधो ते सर्व वात सज्जाने जाणी, अने तेणे आवी राजानी आगल चाडी खाधी ॥ कळुं ठे के ॥ परविघ्नेन संतोषं, जजते दुर्जनोजनः ॥ लज्जेदग्नि. परां दीप्ति, परमंदिरदाहत. ॥ १ ॥ राजार्ये ते वात सांजली क्रोधवंत थइ कुमरने तेडावी एकांतें वेसाडी शीखामण आपीने कळुं, के

हे पुत्र । तुं अत्यत दान देवाना व्यसननो त्याग  
 कर ॥ यत. ॥ अतिदानाद्गुली चन्द्रो, नष्टो मानात्  
 सुयोधन ॥ विनष्टो रावणो लौक्या, दत्तिसर्वत्र वर्ज-  
 येत् ॥ १ ॥ महाडु'खाय संपद्ये, दत्तिमेघस्य वर्षणम्  
 ॥ प्राणघाताय जायेत, प्राणिनामतिजो जनम् ॥ २ ॥  
 हे पुत्र । आयपदधी अधिको व्यय करे तो समुद्र  
 पण खाली थइ जाय. माटे पठी निर्झन पुरुष क्यां-  
 य आदर न पामे ॥ यत ॥ आदरं लज्जते लोको,  
 न क्वापि धनवर्जित ॥ कांतिहीनो यथा चंद्रो, वासरे  
 न लज्जेत् प्रथां ॥ १ ॥ यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः  
 इती ॥ माटे कुल, ग्रील, आचार, विद्या, इंद्रियनु प-  
 दुत्व, ए सर्व धनविना निरर्थक जाणवां तो हवे हे  
 वत्स । आजधी तहारे आयपद माफक ऊचित खरच  
 करवो, ड्रव्यनो सग्रह करवो, जेमाटे राज्यने योग्य  
 तुंज ठो, अने राज्य पण जो जमारमां ड्रव्य सव-  
 ल हशे, तोज चालशे, अने वली ड्रव्य हशे तोज  
 सजा सर्व ताहारी आझामां रहेशे

एवु पितानु वचन सांजली कुमर मनमां चिंतववा  
 लाग्यो, के जूळ महारा पितानु महाराजपर केटहुं  
 हेत ठे ॥ यत. ॥ आकारैरगितैर्गत्या, चेष्टया ज्ञापणे-

न च ॥ नेत्रवक्रविकारैश्च, लज्यतेऽतर्गतं मन ॥ को-  
 श्क पुण्यवंतनी उपरज माता पितानी सौम्यदृष्टि प-  
 ङ्के. ह्वे कुमर पितानी आज्ञा पाम्या पठीस्वदप स्वदप  
 दान धर्म करवा लाग्यो, तेवारें याचकजनो कहेवा  
 लाग्या के हे ललितांगकुश्रर । प्रथम तमे हाथी स-  
 रखा दातार थइने ह्वे गर्दज जेवा कृपण केम थया ?  
 अथवा प्रथम तमे कदपवृक्ष समान थइने ह्वे धतु-  
 राप्राय केम थया ? अथवा पहेला सिंहसमान थइने  
 ह्वे शीयालीया जेवा केम थया ? एम स्वार्थनष्ट याच-  
 क लोको कहेवा लाग्या ॥ यत ॥ तावत् प्रीतिर्ज-  
 वेल्लोके, यावदान्नं प्रदीयते ॥ वत्स. क्षीरहाय हृष्टा,  
 स्वयं त्यजति मातरम् ॥ १ ॥ कदापि समुद्रमर्यादाथी  
 चूके, राजाहरिचंद्र सत्य मूके, मेरु कंपायमान थाय,  
 पृथ्वी पातालने चांपे, तथापि सत्पुरुष पोतानी वाचा  
 चूके नही ॥ यत. ॥ चलेच्चमेरुः प्रचलेत्तु मंदरं, चलेत्तु  
 ताराग्रहचंद्रज्ञानु. ॥ कदापिकाले पृथिवि चलेद्भि,  
 तथापि वाक्यं न चलेद्भि साधोः ॥ १ ॥ एवां वाक्य  
 सांनली कुमर डु खित थयो थको चिंतववा लाग्यो  
 के मने तो वाघ नदीना न्याय समान कष्ट प्राप्त  
 थयुं ठे ह्वे जो हु दानेश्वर थाउ तुं, तो पितानी

आह्वानु उल्लंघन थाय ठे, अने जो दान नथी आपतो,  
 तो कीर्त्ति जाय ठे ॥ यत. ॥ जइ गिलइ गलइ जयरं,  
 जइ न गिलई गलंतिन यणाइं ॥ अहिविसमा कज्जा  
 गइ, अहिणा ठहुंदरी गहिया ॥ १ ॥ अथवा रुहुं क-  
 रता मुजने श्यो दोष ठे. एवु विचारी कुमर वली  
 पण पूर्वनी पेटें दातार थको दान देवा लाग्यो, ते  
 वात राजाये सांजली तेवारे कोपायमान थइने कुम-  
 रने देशवटो दीधो पठी कुमर पण महामाननो धर-  
 नार, साहसिकनो शिरदार ते थोकाएक असवारोने  
 साथें लइ हाथमां हथीयार लइने तत्काल परदेशे  
 चाळ्यो, केम के तेजी ताजणो खमे नही पठी ते  
 समाचार लोकोना मुखथी जाणीने सज्जन पण  
 पाठलथी नीकलीने कुमरने जइ मळ्यो मार्गमां वेहु  
 जण चाळ्या जायठे, तेवारे सज्जनप्रत्यें कुमर पूठवा  
 लाग्यो के हे सज्जन ! कांइ चमत्कारिक वात तो कहो  
 तेवारं सज्जन बोळ्यो के हे कुमरजी ! तमें कहो के  
 पुण्य अने पाप ए वे माहे कोण रुहुं ठे ? के जेनी  
 प्रशसा करीये तेवारें ललितांगकुमर हसीने कहेवा  
 लाग्यो के अरे झूडा मूर्खा ! एटखुं तो सहु कोइ  
 जाणेज ठे, के जिहा धर्म तिहां जय, अने पाप ति-

हां क्य ठे, ते सांजली अधर्मी सज्जन बोळ्यो के  
 हे स्वामी ! जो पुण्य रुडुं ठे, तो तमें दानपुण्यादिक  
 करतां करावतां इहां आवी अवस्था केम पाम्या ?  
 तारे तेने कुंअर कहुं के जे कष्ट पामीये ते पूर्वकृत  
 पाप कर्मनो उदय जाणवो अने जे शाता पामीयें,  
 ते पूर्वकृत पुण्यकर्मनो उदय जाणवो. तेवारें वली  
 सज्जन बोळ्यो, के तमारा धर्मनुं फल तो मे प्रत्यक्ष  
 दीनु, माटे हवे तमें चौर्यादिकें धन उपार्जन करी  
 राज्य पोताने वश करो ते सांजली ललितांगकुमर  
 बोळ्यो के हे दास ! तुं एवा सपाप वचन म बोल  
 कारण के स्वजावे पण पाप वचन बोळ्या थको जीव  
 दुःख प्रत्यें पामे ठे. जेम होंशे करी विष खाधुं  
 थकु पण मरण उपजावे ठे, माटे तहारेएवा यद्वा  
 तद्वा प्रलाप करवा नही कारण वली एम करवाथी  
 तारे शुं वाच थाय ठे जो तुजने एनो निश्चय कर-  
 वो होय तो चालो आपणे कोइ महंत पुरुपने पूठी-  
 यें अने जो ते पुण्यथकी जय थाय एवु कहे, तो  
 तहारे महारे शी सरत ? ते सांजली सज्जन बोळ्यो  
 के जो एम कोइ कहे तो हुं आ जन्मपर्यंत तमारो  
 दास थइने रहिश, अने जो एम नठरे तो आ जन्म-

पर्यंत तमे माहारा दास थडने रहो वन्ने जणे एवी प्रतिज्ञा करी, आगल चालतां कोइक गामें जइ पहोता. तिहां घणा महोटा लोकोनां टोलासांहे जइ पूठवा लाग्या के जाइउ ! सुखश्रेय पामीये ते पुण्यथी किवा पापथी ? ए प्रश्नवचन सांजलीने लोको बो-  
 ल्यां के जाइ । हमणां तो पापज सुखहेतु ठे, अने पुण्यथी क्य थाय ठे, एवु सांजली वेहुजण आगल चाड्या मार्गमां लखितांगकुमरने सज्जन हासी पूर्व-  
 क कहेवा लाग्यो के अहो कुमर । हवे तमे घोडा उपरथी उतरी चाकर थडने महारी आगल चालो पोतानी प्रतिज्ञा पावो, एवुं वचन सांजली कुमर घोडाथी नीचें उतरी सज्जन प्रत्ये कहेवा लाग्यो के हे मित्र ! हु सर्वदा ताहरो सेवकज तुं ए असाग धननी शोचा कारमी ठे तेनी काइ मने गरज नथी-  
 मने तो एक धर्मज निश्चल थाउं एम कही सेवक थड आगल चाड्यो अने सज्जन घोडा उपर चड्यो आगल चालता वली कुमरप्रत्ये कहेवा लाग्यो के हे कुमर । श्रीजिनधर्मना फल जोगवो केहवां ठे हु तमोने हजी पण कहु तुं, के तमें तमारो कदा-  
 ग्रह मूकीने पाप चोरादिक कर्म करो, ते शिवाय

बीजो कोइ तमारे जीववानो उपाय मने चासतो  
 नथी जो एम नहि करशो तो कष्ट पामशो एवां  
 वचन सांजली रीश चढावीने कुमर बोढ्यो के अरे  
 मूर्ख ! तहारामां गुण तो सर्व दुर्जननांज देखाय  
 ठे, पण तहारी फश्ये तहारुं नाम सज्जन पाड्युं ठे.  
 ते मिथ्या ठे. जे मिथ्याउपदेश आपे ते महापापी  
 जाणवो. तेनी उपर एक दृष्टांत कहु तु ते सांजल  
 कोइएक आहेडी निरंतर जीवोनो बध करतो अट-  
 वीमां वसे ठे एकदा प्रस्तावे आहेडीये वनमां जइ  
 एक हरणी दीठी, तेने हणवा माटे कान पर्यंत वाण  
 सांधीने जेवामां ठोडवा टाग्यो, तेवामां हरणी बोली  
 के हे व्याध ! हे बांधव ! तुं क्षण एक सबूर कर  
 एटलामा हु महारां न्हानां वचांउने धवरावी पाठी  
 आवु तेवारं आहेडी वीढ्यो अरे वापडी ! तुं आ  
 वाणथी वूटी जइश तो फरी पाठी आशीश नही,  
 तेवारं तेने हरणीये कछु के जो हुं न आवु तो  
 महारे गिर गोहत्यादिकना पापी ठे, ते वचन सा-  
 नली आहेडीये कछु के कष्टमांथी उगरवा माटे तु  
 एवां वचन बोले ठे, ते हुं मानुं नही तेवारं मृग-  
 णीये कछु के हे पारार्थी ! आ समये जे तुं कहे



तेवा सम हु खाज । तेवारे आहेडीये कन्नु के शीख  
 पूठता कुशीख आपे, तेनुं पाप तहारे शिर ले, तो  
 हु जावा देउ तेवारे हरणीयं ते प्रतिज्ञा करी, अने  
 पाराधीयं तेने जवा दीधी, पठी ते पोतानां बाळकोने  
 धवरावी संतोपीने पोतानु वचन पाळवा माटे पाठी  
 आहेडी पासं आवीने कहेवा लागी के हे वधक ।  
 हु कयी दिशायें नासी जाज तो तहारा वाणथी  
 वृद्ध । ते सांजली आहेमी विचारवा लाग्यो के हुं  
 एने कुशीख आपीश तो मने पाप लागशे, माटे  
 खरुं कहेवु जोड्यें, एम चिंतवीने कहेवा लाग्यो के  
 जो तु जमणी वाजुये नाशी जा, तो वृटे, एवु वचन  
 साजली हरणी जमणी वाजु नाठी तेथी वृटी माटे  
 हे सज्जन । शीख आपतां कुशीख आपे तो ते म  
 हापापी कहेवाय. तो हवे तुं महारो मित्र ठत  
 मुऊने कुशीख केम आपे ते ? जो कोइ वापड  
 पामर लोकोये धर्म नहीं वखाण्यो तो शु तेथी ध  
 व्यर्थ थइ गयो समजवो ? जो आंधले पुरुपे सू  
 न दीगो, तो शु सूर्य नहीं उग्यो, एम समजवु  
 माटे ससारमाहे सारपदार्थ सर्वलोकनो आधार  
 सर्व सुखनो जडार, स्वर्गापवर्गनो दातार, अर्चित्य

चितामणि समान, सकलकलाप्रधान एवो एक धर्म  
ज ठे एम जाणवुं

वली सज्जन बोळ्यो के अहो कुमर! तु तो महा  
कदाग्रही देखाय ठे, जेमाटे धर्मनां फल देखतो  
उतो पण हजी मानतो नथी रासजनुं पूंठ पकळ्युं  
ते मूकबुज नही एवो तहारो न्याय ठे जेम कोइ  
ग्रामीण माता पितायें पुत्रने शीखव्यु जे पांच जण-  
मां वेशी जे वात अगीकार करीयें, ते मूकीये नही  
एवी शिक्षा दीधी एकदा ते मूर्खशिरोमणिये एक  
सांड नाशी जतो हतो तेथी तेणे पांचनी साक्षीथी तेनुं  
पूंठ पकळ्यु पण मूके नही तारें लोक कहेवा लाग्यां  
के हे मूर्ख ! मूकी आप पण पेळो मूके नही, तेम  
तें पण हठ लीधो ते ठोडतो नथी हजी पण जो  
महारुं कळ्यु न माने तो चाल आगल वीजा लो-  
कोने पूठीये एम वाढ करतां परस्परें नेत्रनी होड  
हरी एटले जे हारे ते पोताना नेत्र काढी आपे  
आगल कोइ गाममां जइ लोकोने पूठ्यु के धर्म  
वृत्तम के अधर्म ? तेवारें ते मूर्खीयें पण अधर्मनीज  
यापना करी, ते वाणी सांजली सज्जन हर्पे पाम्यो.  
आगल जतां कुमरनी पासिंथी होडमा हारेला नेत्र

माग्यां, कुमरें पण पोतानी चड्डु ठरीयडे कादानी  
 आपी, तेवारं सज्जाने कण्ठुं के केम कुमरजी धर्मनां  
 फटा दीठां के । आंधला तो घया ॥ एम फही  
 लगारेक तिहां वेसी पत्री कुमरने मूकी घोडे चडीने  
 सज्जान अन्वदेशे जतो गयो

द्वे पाठलथी कुमर चितववा लाग्यो के आप  
 दारूप नदीनो पूर, पूर्व कृतकर्मप्रमाणे महारे वृ  
 ङ्गि पाम्यो ठे, अथवा वलीआपदा ते शुं? धर्मना  
 प्रसादणी सर्व सारुज याशे. एम चितवी ज्ञानवदे  
 वर्म उपर निश्चल मन करी उजो रखो. एवाम  
 सूर्य अस्त पाम्यो चारे दिशाये अधकार पसत्यो  
 रात्रिचर जीवो सचार करवा लाग्या, चोर पसख्या  
 एवा अवसरें तिहां वड उपर चारन पखीउं मर्ल  
 मांहोमाहे वातो करवा लाग्या के जेणे जे कौतुव  
 हीतु होय ते कहो तेवारं एक वोढ्यो के इहार्थ  
 पूर्वदिशें चपा नगरे जितशत्रु राजा राज्य करे ठे  
 ने पुष्पवती नामा पुत्री प्राणथी पण वद्वज ठे, ते  
 महारूपसौंदर्यनु निधान ठे, यौवनावस्था पामी पण  
 कृतकर्मने योगे तेने अधपणुं प्राप्त थयु ठे एकद  
 प्रस्तावे राजा पोतानी पुत्रीने खोलामा वेसाडी चिं

तववा लाग्यो के एक तो दीकरी ठे ते स्वजावे चितानुंज कारण ठे अने वली एतो कमें कलंकित ठे अने विवाहयोग्य पण थइ ठे. हवे श्यो उपाय करवो? एम विचारी नगरमां पडह वजडाव्यो के जे राजानी दीकरीनी आंखो सारी करे, तेने राजा अर्धु राज्य तथा तेहीज कन्या आपे एवी रीतें राजपुरुषो तिहां चहुटे चहुटे ढढेरो फेरवे ठे ए कौतुक मे दीतुं हवे आगल शुं थारो? ते हुं जाणतो नथी

एवुं सांजली वली एक न्हानो जारंरु वोढ्यो के हे तात ! तमे जाणता हो तो कहो, के नेत्र सारां केववानो कोइ उपाय ठे ते सांजली वृऊ जारंरु वोढ्यो के हे वत्स ! उपाय तो घणाय ठे पण जाग्य विना मले नही तेवारे लघुजारंरु वोढ्यो के तमें जाणता हो तो कहो तेवारे वृऊ जारंरु वोढ्यो के हे वत्स ! रात्रियें कहेवाय नही ॥ यत. ॥ दिवा निरीक्ष्य वक्तव्य, रात्रौ नैवच नैवच ॥ संचरंति हाधूर्त्ता, वटे वररुचिर्यथा ॥ १ ॥ वली लघुजारंरु वोढ्यो के इहां तो कोइ सांजलतो नथी माटे में कहो. तेवारे वृऊ वोढ्यो जे ए वृद्धने जे वेल-

डी वीटाइ रही ठे, तेने लइने जो आंखे अजन  
 करे, तो नवां नेत्र आवे, ते सांजली वली लघुजा  
 रंरु बोड्यो के स्वामी ! तमे प्रजाते किहां जाशो ?  
 ते बोड्यो के तेहीज नगरे हु जइश, लघुजारंरु  
 बोड्यो के हु पण कौतुक जोवाने माटे तमारी  
 साथे आवीश एवी वात करीने ते चारनो सूइ र  
 ह्या कुमरे वडहेठल वेठां थकां सर्व वात सांजल  
 विचारुं जे पुण्यनुं प्रमाण अद्यापि प्रवर्त्ते ठे पठ  
 ते वेखडी लइ हाथथी घसीने आंखे अजन कीधुं  
 तेथी नवी चहु आवी पठी वरु उपर चढी संपूर्ण  
 वेखडी लइ लीधी अने पोतें चारंरु पंखीनी पांख  
 मा वेसी रह्यो प्रजाते चारंरु उडी चपायें पहोते  
 कुमर पण पांखमांथी नीसरी वस्त्रादिक पहेरी रा  
 जहारें गयो, दरवाने आवी राजा आगल हकीगत  
 जाहेर करी के हे स्वामी ! कोइक देशांतरी पुरुष  
 आवी कहे ठे, के हु राज्यकुमारीनी आंखो सार  
 करीश ? ते वात सांजली राजाये तेने आदरथी ते  
 डी विनति करीने कहु के हे महापुरुष ! उपकार  
 करो पठी कुमरे तरत वेखडीनो रस काहाडी आं  
 खे अंजन करी राजपूत्रीने साजी करी तेवारें रा

जाये पण महोटा महोत्सव पूर्वक पोतानी पुत्री कुमरने परणावी दीधी हाथ मेलावडमां हाथी, घोडा, पायदल प्रमुख घणी लक्ष्मी आपी अने अर्द्ध राज्य दीधुं तिहां मनुष्य संवधी जोग जोगवतो सुखें रहे ठे.

एकदा गवाक्षमां वेगो ठे, एवामां जेनी आंखमां थी आंसु जरे ठे, रोगे करी अस्त अने फाटेलां वस्त्र, वीजत्सांग, दुर्निरीक्ष्य, पगे पगे पडता एवा सज्जानने आवतो पीगो तेवारें पापनां फल प्रत्यक्ष देखीने कुमरने दया आवी तेथी चाकर मोकळी तेडावी जेसाडीने पूव्यु के हे सज्जान ! तु मुजने उलखे ठे ? ते बोड्यो अहो सत्पुरुष ! तमने कोण नथी उलखतो. कुमरे साचु पूव्यु तेवारे अणवोड्यो रह्यो पठी कुमरे पाठळुं वृत्तांत कही सर्व पोतानी हकीगत संजलावी, तेथी ते सज्जान लज्जा पाम्यो पठी तेना फाटेलां वस्त्र उतरावी नवां पहेरावी जोजन करावीने कळुं के हे मित्र ! आ लक्ष्मी सर्व ताहारी ठे, तुं निश्चित थको आंही सुख जोगव

हवे सज्जान बोड्यो के हु तमने मूकीने चालतो थयो आगल जता मने चोर मट्या तेणे लाकडी

तथा मुष्ट्यादिकें खूब मार्यो, अने महारीपासें जे धन हतु ते सर्व छद्म लीधु. मात्र पाप जोगववा मा-  
 टेंज जाणेमुने जीवतो मूक्यो होय नहि ? तेम जी-  
 वतो मूक्यो तिहाथीहूं अनेक देश जस्यो सर्वत्र दुःख  
 देखतो तमने आवी मळ्यो तु माटे हूं पापीने तमें  
 दूर जवा द्यो तमारी पासें म राखो ते सांजली कु-  
 मर बोट्यो के हे सज्जन ! हु राज्य कन्यादिक कृ-  
 ष्णि पाभ्यो, ते सर्व तहारो प्रताप हें माटे हवे  
 तु आ राज्यनी चिता कर एम कही तेने प्रधान  
 पदवी आपी

ए खबर सर्व कुमरनी स्त्री पुष्पवतीयें सांजली  
 तेवारे जर्तार प्रत्ये कहेवा लागी के हे स्वामिन् !  
 ए तमारो बालपणानो मित्र ठे, तो एने कोश ए-  
 काद गाम आपी द्यो पण तमाराथी दूर राखो, प-  
 रंतु पासें म राखो ॥ यत् ॥ दुर्जन परिहर्तव्यो,  
 विद्यया जूपितोपिसन् ॥ मणिना जूपित. सर्प, कि-  
 मसौ न जयकर ॥ १ ॥ जेमाटे दुर्जनने उपकार  
 करतां पण साहासु कष्ट थाय, जेम कोशएक काग-  
 डो सरोवरने विषे घग प्रमुखने तरती देखी पोतें  
 पण तेमनी पेटे मत्स्यजक्षण करवा सारु पाणीमां

पड्यो, पण तरतां आवडतुं नथी तेथी पाणीमां वू-  
 डवा लाग्यो, तिहां तेने कोइ राजहंसीयें वीगो,  
 तेने दया आवी तेवारें राजहंसने कहेवा लागी के  
 हे स्वामी ! वापडो कागडो बूडे ठे, माटे तमे उप-  
 कार करी एने काहाडो तेवारें हंसहंसिणीये मली  
 चांचे ताणी पकडीने वाहेर काढ्यो पठी कागडो  
 हंस हंसिणीने पगे लागी कहेवा लाग्यो के हे जा-  
 ग्यवानो ! हु ज्यासुधी जीवतो रहुं, त्यांसुधी त-  
 मारो उपकार मानीश. हवे कृपा करी तमे वेहु जण  
 आहार न्हाण करवा अमारा वनमां आवो तेवारें  
 हंस हंसिणीने पूव्यु के केम तहारी शी मरजी ठे ?  
 हंसिणी बोली के हे स्वामी ! उपकार सर्वने करीये  
 पण अजाण्यानी संगत न करीयें एम हंसिणीयें  
 वास्यो, तो पण दाक्षिण्यने लीधे हस, कागडानी  
 साथे वनमां गयो. ते वेहु कोइ लोंवडाना जाड उ-  
 पर वेठा, ते वृद्ध नी नीचें कोइ राजा आवी वीसा-  
 माने अर्थ उचो रह्यो ठे तेनी उपर कागडो विष्टा  
 करीने तिहांथी उडी गयो राजाये उचु जोइने हं-  
 सनी उपर वाण मूक्यो, तेथी हंस तडफडतो चूमि-  
 ल्यो पड्यो, राजाये विचारुं जे आ धवल काग ठे,



ए कौतुक जेवी वात ठे ते सांजली हस बोळ्यो  
 नाहं काको महाराज ! हंसोऽहं विमले जले ॥ नी  
 चसंगप्रसंगेन, मृत्युरेव न सशयः ॥ १ ॥ ए वा  
 स्त्रीयें कहीने कल्यु के हे स्वामी ! तमें नीचनरनं  
 संगति म करो कुमर ते हितकारक वचन जाणत  
 थको पण दाक्षिणपणे तेनो संसर्ग मूके नही, ए  
 केटलोएक काल व्यतिक्रम्यो

अन्यदा प्रस्तावे राजाये सज्जनने पुत्र्यु के ए कु  
 मरनी साथें तमारे मांहोमांहे गाढ स्नेहनुं कार  
 शु ठे ? तेवारें सज्जनं विचारुं जे हु प्रथमथी कुम  
 रनी उपर दूषण चढावु, तो पठी महारा दूषण ।  
 प्रकाशी शकशे नही, एम विमासी राजा प्रत्ये बो  
 ल्यो के हे स्वामिन् । ए वात कहेवा योग्य नर्थ  
 केम के कुमरे मुजनें प्रथमथी सोगद खबराव्या ठे  
 एवु सांजली राजा वली विशेष आग्रह करी पूठव  
 लाग्यो, तेवारें राजाने सोगद आपीने सज्जन कहेतं  
 हवो, के वासपुरी नगरीये नरवाहनराजानो हुं पु  
 त्रु अने ए महारा घरनी दासीनो पुत्र ठे कर्मयोगे  
 देशांतरें जमतो थको विद्या पाम्यो, तेवारें नीच  
 जातिथी लज्जा पामीने घरमा रहे नही देशात